



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

30 चैत्र 1945 (श०)  
(सं० पटना 339) पटना, बृहस्पतिवार, 20 अप्रील 2023

---

गृह विभाग  
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना  
12 अप्रील 2023

सं० 2/आ०-70-19/2020 गृ०आ० 4636—श्री मिश्रा सोमेश कुमार शिव कुमार, परिवीक्ष्यमान पुलिस उपाधीक्षक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर को अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता, व्यभिचारी प्रवृत्ति एवं नैतिक अधमता, के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9 (1) के तहत विभागीय अधिसूचना सं०-6475 दिनांक-29.09.2020 द्वारा निलंबित करते हुए संकल्प संख्या-1765 दिनांक-26.02.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी, जिसमें दण्डादेश निर्गत है एवं विभागीय कार्यवाही का समापन हो चुका है।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही के समापन के फलस्वरूप श्री मिश्रा सोमेश कुमार शिव कुमार, परिवीक्ष्यमान पुलिस उपाधीक्षक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर सम्प्रति निलंबित को निलंबन से मुक्त किये जाने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से लिया गया है।

3. उक्त निर्णय के आलोक में श्री मिश्रा सोमेश कुमार शिव कुमार, परिवीक्ष्यमान पुलिस उपाधीक्षक सम्प्रति निलंबित को आदेश निर्गत होने की तिथि से निलंबन मुक्त किया जाता है। श्री मिश्रा निलंबन से मुक्त होने के उपरांत पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना में योगदान समर्पित करेंगे।

4. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
सुधांशु कुमार चौबे,  
सरकार के उप-सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 339-571+10-डी०टी०पी०  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>